



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 4 ] नई दिल्ली, फरवरी 7—फरवरी 13, 2016, शनिवार/माघ 18—माघ 24, 1937  
No. 4 ] NEW DELHI, FEBRUARY 7—FEBRUARY 13, 2016, SATURDAY/MAGHA 18—MAGHA 24, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2016

**का.नि.आ. 5.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन, आफसेट मशीनमैन और परिचर (रोमेयर)/परिचर (आफसेट मशीन) भर्ती नियम, 2000 को, जहां तक उसका संबंध परिचर (रोमेयर)/परिचर (आफसेट मशीन) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालयों (सेना, नौसेना, वायु सेना), रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन में परिचर (रोमेयर)/परिचर (आफसेट मशीन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायु सेना), रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन, परिचर (रोमेयर)/परिचर (आफसेट मशीन) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान -** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि** - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परिचर(रोमेयर)/ परिचर( आफसेट मशीन)	19* (2016)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. +ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	आमेसन द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p><b>आमेलन :</b></p> <p>रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालयों (सेना, नौसेना, वायुसेना), रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालय और अंतर सेवा संगठनों के ऐसे समूह 'ग' (तत्कालीन समूह 'घ') कर्मचारी :</p> <p>(क) (i) जो वेतन बैंड -1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.में पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; या</p> <p>(ii) जो वेतन बैंड -1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.में पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने ग्यारह वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास दसवीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता और अधिमानतः मुद्रण मशीन प्रचालन का बुनियादी ज्ञान है।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> ऐसे विद्यमान समूह 'ग' (तत्कालीन समूह 'घ') कर्मचारी जो इन भर्ती नियमों की अधिसूचना की तारीख को उसी हैसियत में सेवारत हैं और जिनके पास आठवीं कक्षा या समतुल्य अर्हता और अधिमानतः मुद्रण मशीन प्रचालन का बुनियादी ज्ञान है, आमेलन पर विचार करने के लिए पात्र होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> सभी पात्र अभ्यर्थियों को आमेलन के प्रयोजन के लिए सुसंगत क्षेत्र के व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करना आवश्यक होगा ।</p>	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए/33944/मुप्रअ/भर्ती - 2]

अमर नाथ सिन्हा, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

**MINISTRY OF DEFENCE**

New Delhi, the 1st February, 2016

**S.R.O. 5.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Defence, Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations, Offset Machineman and Attendant (Romayor)/Attendant (Offset Machine) Recruitment Rules, 2000 in so far as it relates to the posts of Attendant (Romayor)/Attendant (Offset Machine) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Attendant (Romayor)/Attendant (Offset Machine) in the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army, Navy, Air), Defence Staff Headquarters and Inter Service Organisation, under the Ministry of Defence, namely :-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army, Navy, Air), Defence Staff Headquarters and Inter Service Organisations, Attendant (Romayor)/Attendant (Offset Machine) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.** – The number of posts, their classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.** – The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, –

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the Orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Attendant (Romayor)/ Attendant (Offset Machine)	19 * (2016)  * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 ₹ 5200-20200 plus Grade Pay of ₹ 2400.	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By absorption

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>Absorption :</b> Group 'C' (erstwhile Group 'D') employees of the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army, Navy, Air), Defence Staff Headquarters and Inter Service Organisations: (a) (i) holding post in Pay Band-1, ₹5200 - 20200, plus Grade Pay of ₹1900 with eight years regular service in the grade; or (ii) holding post in Pay Band-1, ₹5200 - 20200, plus Grade Pay of ₹1800 with eleven years regular service; and (b) 10th standard or equivalent qualification pass with preferably a basic knowledge of operating printing machine. <b>Note 1:</b> The existing Group 'C' (erstwhile Group 'D') employees who are working as such as on the date of notification of the Recruitment Rules with 8th standard or equivalent qualification and preferably a basic knowledge of operating printing machine shall be eligible for consideration of absorption. <b>Note 2:</b> All the eligible candidates shall be required to qualify a trade test in the relevant field for the purpose of absorption.</p>	Not applicable	Not applicable.

[F. No A/33944/CAO/R-II]

AMAR NATH SINHA, Dy. Chief Administrative Officer

**(रक्षा उत्पादन विभाग)****(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)**

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2016

**का.नि.आ. 6.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, में स्टाफ कार चालक, (विशेष श्रेणी) समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान :** पद की संख्या उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान उक्त पद से संबद्ध वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.—** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी)	01* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300- 34800रु + ग्रेड वेतन 4200रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन बैंड 1, 5200-20,200/-रु और ग्रेड वेतन 2800 रु में ऐसे सिविलियन मोटर ट्रॉसपोर्ट ड्राइवर श्रेणी -I जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलातापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निदेशक, मुख्यालय, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय -अध्यक्ष</li> <li>2. संयुक्त निदेशक या उसके समतुल्य स्तर के अधिकारी वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय -सदस्य</li> <li>3. उप निदेशक या उसके समतुल्य स्तर के अधिकारी वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय -सदस्य</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

[फा.सं. 4741/भ.नि./समूह 'ख' सी एम टी डी (एस जी)/ डी.जी.ए.क्यू.ए./प्रशासन-II/डी (एच ए एल)]

इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

**(Department of Defence Production)**

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 29th January, 2016

**S.R.O. 6.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Special Grade), Group 'B' Non-gazetted, non-ministerial post in Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, namely :-

1. **Short title and commencement .-** (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Staff Car Driver (Special Grade), Group 'B' post Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale .-** The number of post, their classification, the pay band and grade pay or pay scale attached to the said post shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc, .-** The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or scale of pay	Whether selection or non selection post	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Civilian Motor Transport Driver Special Grade	01* (2014) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-2, ₹ 9300-34,800 plus grade pay of ₹ 4200.	Non- Selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion




In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Civilian Motor Transport Driver Grade-I in Pay Band-1, Grade Pay ₹ 2800/- in the Pay Scale ₹ 5200-20200 with 3 years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period of promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of : –</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director from HQ Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Chairman</li> <li>2. Joint Director or equivalent from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member</li> <li>3. Joint Director or equivalent from any other Defence establishment – Member</li> </ol>	Not applicable.





[F. No.4741/RR/Gp'B'(CMTD Spl Gde)/DGAQA/ADM-II/D(HAL)]





INDERJEET SETHI, Under Secy.

नई दिल्ली 29 जनवरी, 2016

**का.नि.आ. 7.**—छठे वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना, विभिन्न पदों के विलयन एवं पुनर्पदनामन के बारे में की गई सिफारिशों के मद्देनजर और भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की दिनांक 15 नवंबर 1962 की अधिसूचना सं. 2650, जहाँ तक इसका संबंध ग्रेफ अधीनस्थ कार्मिकों से है, सिवाय उन बातों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, का अधिक्रमण करते हुए सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल की विभिन्न अधीनस्थ श्रेणियों के रैंक बैज निम्नवत् होंगे:-

क्र.सं.	ट्रेड	रैंक का नया बैज	
		कंधा (दोनों कंधों पर लगाई जाए)	बाँह (दायी बाँह के ऊपरी हिस्से के मध्य पर बाहर की तरफ लगाई जाए)
1.	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक		
		5 मिमी की दूरी पर प्रत्येक 12 मिमी चौड़ी तीन फीतियाँ	

2.	कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिक) वरिष्ठ नक्शानवीस नक्शानवीस ग्रेड-1 (यांत्रिक) सहायक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक आशुलिपिक श्रेणी-"क" वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रशासन वरिष्ठ पर्यवेक्षक भंडार		<div data-bbox="857 388 1263 478" data-label="Text"> <p>5 मिमी की दूरी पर प्रत्येक 12 मिमी चौड़ी दो फीतियाँ</p> </div>
3.	सहायक अग्निशमन अधीक्षक चार्जमैन (संचार) भेषजविज्ञ		<div data-bbox="836 651 1295 745" data-label="Text"> <p>5 मिमी की दूरी पर एक फीती 12 मिमी चौड़ी और दूसरी 06 मिमी चौड़ी</p> </div>
4.	उच्च श्रेणी लिपिक आशुलिपिक श्रेणी "ख" पर्यवेक्षक परिचर्या सहायक चार्जमैन (संचार) पर्यवेक्षक बीजलेख पर्यवेक्षक भंडार पर्यवेक्षक प्रशासन पर्यवेक्षक अग्निशमन नक्शानवीस (यांत्रिक)-II नक्शानवीस अधीक्षक भवन और सड़क ग्रेड-2 (गैर डिप्लोमा धारी)* अधीक्षक विद्युत एवं यांत्रिक ग्रेड-2 (गैर डिप्लोमा धारी)*		<div data-bbox="860 1098 1193 1182" data-label="Text"> <p>12 मिमी चौड़ी एक फीती</p> </div>
5.	रेडियो मैकेनिक		 <div data-bbox="860 1591 1312 1675" data-label="Text"> <p>प्रत्येक 12 मिमी चौड़ी और 3 मिमी की दूरी पर शीऐन शिखा के साथ तीन क्षैतिजिक फीतियाँ</p> </div>

6.	<div>अवर श्रेणी लिपिक</div> <div>हिंदी टंकक</div> <div>भंडारी तकनीकी</div> <div>लीडिंग हैंड (प्रशासन)</div> <div>लीडिंग हैंड (अग्रिशमन)</div> <div>प्रचालक (संचार)</div> <div>प्रयोगशाला सहायक (सूक्ष्मदर्शी)</div> <div>ऑपरेशन कक्ष सहायक</div> <div>रक्ताधान सहायक</div> <div>प्रयोगशाला सहायक</div> <div>ओवरसियर (गैर डिप्लोमा धारी)*</div> <div>चार्ज मैकेनिक (गैर डिप्लोमा धारी)*</div> <div>चार्ज इलेक्ट्रीशियन (गैर डिप्लोमा धारी)*</div> <div>चार्ज मैकेनिक **</div> <div>चार्ज इलेक्ट्रीशियन **</div>		 <div>प्रत्येक 12 मिमी चौड़ी और 3 मिमी की दूरी पर तीन क्षैतिज फीतियां</div>
<p>* ये पद 1996 के भर्ती नियमों के अनुसार हैं। भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास मंडल के दिनांक 13 मई 2010 के पत्रांक बीआरडीबी/06/166/2010/जीई-1 के अनुसार गैर डिप्लोमा धारकों के वर्तमान पद जैसे कि अधीक्षक भवन और सड़क ग्रेड-2, अधीक्षक विद्युत एवं यांत्रिक ग्रेड-2, ओवरसियर, चार्ज मैकेनिक, चार्ज इलेक्ट्रीशियन के अधिवर्षिता को प्राप्त होने अथवा स्थिति में परिवर्तन होने तक इसी पदनाम में बने रहेंगे।</p> <p>** भर्ती नियम 2012 के अधीन नियंत्रित।</p>			
7.	<div>चालक यांत्रिक परिवहन विशेष ग्रेड</div> <div>प्रचालक उत्खनन मशीनरी विशेष ग्रेड</div> <div>चालक रोड रोलर विशेष ग्रेड</div>		 <div>प्रत्येक 12 मिमी चौड़ी और 3 मिमी की दूरी पर "वी" आकार में तीन फीतियां</div>
8.	<div>चालक यांत्रिक परिवहन ग्रेड-I</div> <div>प्रचालक उत्खनन मशीनरी ग्रेड-I</div> <div>चालक रोड रोलर ग्रेड-I</div>		 <div>प्रत्येक 12 मिमी चौड़ी और 3 मिमी की दूरी पर "वी" आकार में दो फीतियां</div>
9.	<div>चालक यांत्रिक परिवहन ग्रेड-II</div> <div>प्रचालक उत्खनन मशीनरी ग्रेड-II</div> <div>चालक रोड रोलर ग्रेड-II</div>		 <div>12 मिमी चौड़ी "वी" आकार में एक फीती</div>



2. सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल के वे कार्मिक जो पूर्व में अधीक्षक भवन और सड़क ग्रेड-I, अधीक्षक विद्युत एवं यांत्रिक ग्रेड-I, अधीक्षक गैर तकनीकी, अधीक्षक भंडार, आशुलिपिक ग्रेड-I तथा कार्यालय अधीक्षक जो वर्तमान में तीन फीतियों के उच्च रैंक बैज धारण किए हुए हैं, वे अधिवर्षिता अथवा पदोन्नति तक वर्तमान रैंक बैज धारण करते रहेंगे।
3. जिन कार्मिकों को किसी भी तरह का रैंक बैज धारण करना प्राधिकृत नहीं है उन्हें अधिवर्षिता से पूर्व सेवा के अंतिम वर्ष के दौरान उपर्युक्त क्रमांक 6 में दर्शित रैंक बैज धारण करने की अनुमति दी जाती है।
4. नए रैंक बैज कार्मिकों को किसी भी वित्तीय लाभ या उनके द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों एवं जिम्मेदारियों में परिवर्तन को प्राधिकृत नहीं करते हैं।




[फा.सं. बीआरडीबी/06/10/2014/जी ई-1]



ब्रह्मानंद श्रीवास्तव, निदेशक



New Delhi, the 29th January, 2016

**S.R.O. 7.—** In view of the 6th Central Pay Commission recommendations regarding revised pay structures, merger and re-designation of various posts and in supersession of notification of the Government of India, Min of Defence published in the Gazette of India, vide number 2650, dated the 15th November, 1962 in so far as it relates to the GREF subordinates, except as respect of things done or omitted to be done before such supersession, the rank badges in respect of various categories of General Reserve Engineer Force subordinates shall be as follows:-

SI No	Trade	New Badges of Rank	
		Shoulder ( to be worn on both the shoulders)	Arm ( to be worn on Right Upper Arm in the Centre, facing outward)
1	Senior Hindi Translator	 <div>Three stripes of 12 mm width each, spaced 5 mm apart</div>	
2	Junior Engineer (Civil) Junior Engineer (Electrical and Mechanical) Senior Draughtsman Draughtsman (Mechanical) Grade-I Assistant Junior Hindi Translator Stenographer Grade A Senior Supervisor Administration Senior Supervisor Stores	 <div>Two stripes of 12 mm width each, spaced 5 mm apart</div>	

3	Assistant Fire Superintendent	 <div>One stripe of 12 mm width and One stripe of 06 mm width spaced 5 mm apart</div>	A
	Chargeman (Communication)		
	Pharmacist		
4	Upper Division Clerk	 <div>One stripe 12mm width</div>	
	Stenographer Grade B		
	Supervisor (Nursing)		
	Assistant Chargeman (Communication)		
	Supervisor Cipher		
	Supervisor Stores		
	Supervisor (Administration)		
	Supervisor Fire		
	Draughtsman (Mechanical)- II		
	Draughtsman		
	Superintendent Buildings and Roads, Grade II * (Non-diploma holder)		
	Superintendent Electrical and Mechanical Grade II * (Non-diploma holder)		
5	Radio Mechanic	 <div>Three horizontal stripes of 12 mm width each spaced 03 mm apart with a Crest as pictorially depicted on top.</div>	

6	Lower Division Clerk		
	Hindi Typist		
	Store Keeper Technical		
	Leading Hand (Administration)		
	Leading Hand Fire		
	Operator (Communication)		
	Laboratory Assistant (Microscopist)		
	Operation Room Assistant		
	Blood Transfusion Assistant		
	Laboratory Assistant		
	Overseer (Non-diploma holder)*		
	Charge Mechanic * (Non-diploma holder)		
	Charge Electrician * (Non-diploma holder)		
	Charge Mechanic **		
	Charge Electrician **		
7	Driver Mechanical Transport Special Grade		
	Operator Excavating Machinery Special Grade		
	Driver Road Roller Special Grade		
<p>*These posts are as per the Recruitment Rules 1996. As per Government of India Ministry of Road Transport and Highways Border Roads Development Board letter number BRDB/06/166/2010/GE-I dated the 13<sup>th</sup> May 2010, the existing trade of non-diploma holders Superintendent Buildings and Roads, Grade II, Superintendent Electrical and Mechanical Grade II, Overseer, Charge Mechanic, Charge Electrician shall continue with same designation till they are superannuated or the change in status.</p> <p>** Governed by Recruitment Rules 2012.</p>			

8	Driver Mechanical Transport Grade-I		 <p>Two 'V' shape stripes 12mm width each spaced 03 mm apart</p>
	Operator Excavating Machinery Grade-I		
	Driver Road Roller Grade-I		
9	Driver Mechanical Transport Grade-II		 <p>One 'V' shape stripe 12mm width</p>
	Operator Excavating Machinery Grade-II		
	Driver Road Roller Grade-II		

2. General Reserve Engineer Force personnel of erstwhile posts of Superintendent Buildings and Roads Grade I, Superintendent Electrical and Mechanical Grade I, Superintendent Non-Technical, Superintendent Store, Steno Grade I and Office Superintendent who are presently wearing higher badges of rank of three stripes on shoulder will continue to wear the existing badge of rank till superannuation or promotion.

3. The personnel who are not entitled to any badges of rank will be permitted to wear badges of rank as shown against serial number 6 during their last year of service prior to superannuation.

4. The fresh badges of rank shall not entitle the personnel to any financial benefit or entail change of responsibilities/tasks being performed by them.

[F. No. BRDB/06/10/2014/GE-I]

BRAHMANANDA SRIVASTAVA, Director